


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 1973/फाल्गुन 15, 1894

No. 49]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 1973/PHALGUNA 15, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 6th March 1973

No. 6-ETC(PN)/73.—In exercise of the powers conferred by clauses 3(1) and 4(1) of the Exports (Control) Order, 1968, published with the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce S.O. No. 927, dated the 8th March, 1968 as amended from time to time, and with reference to public Notice No. 2-ETC(PN)/68, dated the 23rd February, 1968, the Customs Officers as mentioned in Schedule II to Exports (Control) Order, 1968 are hereby authorised to receive the applications and pass the shipping bills in respect of Nylon Fabrics tendered for export by the State Trading Corporation of India Ltd., or their authorised associates.

2. The shipping bills for export of Nylon Fabrics by exporters, who are not authorised associates of the State Trading Corporation of India Ltd., will, however, continue to be passed by the export licensing authorities at the ports, in the manner prescribed in para 2 of Public Notice No. 2-ETC(PN)/68, dated the 23rd February, 1968.

S. G. BOSE MULICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

बाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

नियति व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1973

संख्या. 6-ई०टी०सी०(पीएन)/73.—नियति (नियंत्रण) आदेश, 1968 की धारा 3(1) तथा 4(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर जिसे समय समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के बाणिज्य मंत्रालय आदेश एस० ओ० सं० 927, दिनांक 8 मार्च, 1968 के साथ प्रकाशित किया गया था तथा सार्वजनिक सूचना संख्या 2-ई०टी०सी०(पीएन)/68, दिनांक 23 फरवरी, 1968 के संदर्भ में, नियति (नियंत्रण) आदेश, 1968 के लिए अनुसूची 2 में यथा निर्दिष्ट सीमा-शुल्क प्राधिकारी एतद्द्वारा भारत राज्य व्यापार निगम लि० अथवा उनके प्राधिकृत साझेदारों द्वारा नियति के लिए निविदित नाइलान धागों के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र प्राप्त करने तथा लदान बिलों पर स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं।

2. लेकिन, ऐसे नियतिक, जो भारत राज्य व्यापार निगम लि० के प्राधिकृत साझेदार नहीं हैं, उनके द्वारा नाइलान धागों के लिए लदान बिलों पर सार्वजनिक सूचना संख्या 2-ई० टी० सी० (पीएन)/68, दिनांक 23 फरवरी, 1968 की कंडिका 2 में निर्धारित विधि के अनुसार पत्तनों पर स्थित नियति लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृति दी जाती रहेगी।

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-नियति।